### **GOALPOST INDUSTRIES LIMITED**

(Formerly known as Gulmohar Investments and Holdings limited)

Regd Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110 085

Email id:gulmoharlimited@gmail.com.Tel.:+91-9810260127.Website: www.goalpostltd.in

CIN: L74110DL1982PLC013956

To, , Date: 31.08.2024

| Metropolitan Stock Exchange of India Limited | The Calcutta Stock Exchange |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|
| (Formerly known as MCX Stock Exchange        | Limited                     |  |  |
| Limited)                                     | 7, Lyons Range,             |  |  |
| 4th Floor, Vibgyor Towers,                   | Kolkata-700001              |  |  |
| Bandra Kurla Complex, Bandra East,           |                             |  |  |
| Mumbai – 400 098                             |                             |  |  |
| Symbol: GOALPOST                             | Scrip Code: 17433           |  |  |

Dear Sirs,

Sub: Newspaper clippings -Notice of Annual General Meeting and Record Date

We enclose herewith copies of the public notice of the Annual General Meeting and Record Date published on August 31, 2024 in "English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "FINANCIAL EXPRESS" and Hindi newspaper i.e. "JANSATTA"

Thanking you

For Goalpost Industries Limited

Kalika Mishra Company Secretary **FINANCIAL EXPRESS** 

# **GOALPOST INDUSTRIES LIMITED**

CIN:L74110DL1982PLC013956 Regd Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 | Tel.:+91-9810260127. Email:gulmoharlimited@gmail.com | Website:www.goalpostltd.in

NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42<sup>™</sup> Annual General Meeting of the members of Goalpost Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 26, 2024 at 11: 00 A.M at 324A, III" Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Notice convening the Meeting along with Annual Report has been sent to the members to their registered address electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e Friday, August 23, 2024. Notice and annual report is available on the website of the Company (www.goalpostltd.in). The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on

resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.goalpostltd.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Monday, 23" September, 2024 from 9:00 A.M. and end on Wednesday 25" September ,2024 at 5:00 P.M. The remote evoting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date(Record date), i.e., Thursday 19th September, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting,

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

### RECORD DATE FOR AGM

NOTICE is also hereby given pursuant to applicable provision of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Thursday 19th September, 2024 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the AGM For and on behalf of Board

Goalpost Industries Limited Kalika Mishra Company Secretary

Date: 30.08.2024 Place: New Delhi

SHRIRAM FINANCE LIMITED

(Formerly known as SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE

**COMPANY LIMITED)** 

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and

public at large that our

Visakhapatnam Branch located

at H No. 8-6-24/2, First Floor, Near

Masjid Junction, Main Road,

Chinnawaltair, Visakhapatnam,

Andhra Pradesh - 530017 will shift

to First Floor, Sitarama Nivas, Door

No.- 43-9-131/1, Plot No - 21.

Venkatraju Nagar, Dondaparthy,

Visakhapatnam, Andhra Pradesh -

530001 from 16th December, 2024.

The Customers are requested to

contact the new office premises for

**REGIONAL BUSINESS HEAD** 

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED

(Formerly known as SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE

**COMPANY LIMITED)** 

**PUBLIC NOTICE** 

This is to inform our customers and

public at large that our

Kalaghatagi Branch located at

Second Floor, Hubli Karwar Main

Road, Above Central Bank, near

Bammigatti Circle, Kalghatagi,

Dharwad, Karnataka - 581204 will

shift to First Floor, Kadabi Building,

Hubli, Karwar Road, Near APMC,

Kalghatagi, Dharwad, Karnataka

581204 from 16<sup>th</sup> December, 2024. The Customers are requested to

contact the new office premises for

their needs.

their needs.

Orchies

The most special way to say you care

ARCHIES LIMITED Regd. Office: Plot No. 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050

CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.com & www.archiesinvestors.in

Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666 Notice of 34th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of Archies Limited (CIN.L36999HR1990PLC041175) will be held on Tuesday, September 24, 2024 at 03:00 P.M. through VC/OAVM to transact the businesses, as set forth in the Notice of the AGM which is to be sent by e-mail to all members of the Company. The members can join/attend the AGM through VC/OAVM only. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, January

15, 2021 and May 13, 2022, the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial

Year 2023-24 to be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. The Notice of AGM and Annual Report also to be made available on the website of the Company i.e. www.archiesinvestors.in and the websites of the Stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively. In order to receive the Notice and Annual Report, members are requested to register update their email addresses with the Depositories in case share are held in demat

and with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. (https://instavote.linkintime.co.in) in case shares are held in physical mode. For any query relating to registration of e-mail address, members may write at enotices@linkintime.co.in or cs@archiesonline.com. Members holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off

date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at AGM. The Company has engaged the services of Link Intime India Pvt. Ltd. (https:// instavote linkintime co.in) to provide e-voting facility. All members are informed that:

Members who have already casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to vote again

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained with depositories as on cut-off date will be entitled to avail the facility of remote e-voting.

A person who becomes the member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the user id and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. Members holding shares in physical form, who have not registered their email addresses with the Company, can obtain the Notice of the AGM alongwith the Annual Report

2023-24 by sending scanned copy of request letter mentioning the folio no. and name

of the shareholder, self-attested copy of PAN and AADHAR by email to the Company

at cs@archiesonline.com. The Members are requested to update their complete bank account details with their Depositories in case shares are held in demat mode and in case of physical holding, with the Company's RTA or Company at cs@archiesonline.com along with the copy of the request letter mentioning the name of the member, folio number, bank account details, self-attested copy of PAN and cancelled cheque leaf.

> By order of the Board For Archies Limited

(Anil Moolchandani) Place: Delhi Chairman & Managing Director Date: 30.08.2024 DIN: 00022693

Ref: PDGF/GoTN/CMWSSB-DMA/ 2024

e-Tender

Submission

last date

30-09-2024

up to 11.00

Additional Chief Secretary / Chairman &

**Managing Director** 

Fund Manager of PDGF

TNUIFSL

e-Tender

Opening

date

01-10-2024

11.00 hrs.

GOVERNMENT OF TAMIL NADU PROJECT DEVELOPMENT GRANT FUND (PDGF)

**INVITATION FOR PROPOSALS (IFP)** 

Consulting services

Project Development Grant Fund (PDGF) intends to appoint a firm to provide the following

EMD

in Rs.

1,50,000/-

Estimated

Value incl.

GST in Rs.

1,50,00,000/-

2. The assignment is open to all eligible firms. The Request for Proposals (RFP

online through the Tamil Nadu e-tender website, as specified in the RFP.

TNUIFSL, to clarify queries, if any as stated in the RFP.

e-tender website. Other details are available in the RFP.

may be downloaded and used free of cost from the website viz

https://tntenders.gov.in Proposals complete in all aspects must be submitted

A pre-proposal conference will be held on 13.09.2024 at 11.00 am in the office of

Any Clarifications, Minutes of Pre-proposal meeting, Extension of time and

Addendum & Corrigendum issued will be uploaded only in the Tamil Nadu

consulting services as detailed in the table given below:

**Description of Services** 

Consulting Services for

preparation of Detailed Feasibility

Report and Bid Process

Management for retrofitting all the

newly commissioned water supply

schemes in added area through

conversion of zoning system into

DMA concept by taking up one pilot

area (Mugalivakkam) as a model

for CMWSS Board

CELLA SPACE LIMITED

SREE KAILAS,57/2993 /94, PALIAM ROAD, ERNAKULAM, KERALA - 682016

NOTICE OF 33" ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE & E VOTING

25.09.2023 and other circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 (collectively known as circulars) and all other applicable laws, to transact the business that will be set forth in the Meeting.

those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The requirement of sending physical copies of AGM Notice & Annual Report has been dispensed with vide the above circulars.

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the details of e-voting (both remote e-voting & e-voting during AGM) are

facility at AGM.

September 26; 2024 (05:00 PM). The remote e-voting shall be disabled after that. The cut-off date for e voting is September 20, 2024. A person, whose name is

recorded in the Register of members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at AGM.

Company after dispatch of the Notice & holding shares as on cut off date may obtain

their vote on the Resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system available during AGM.

also attend AGM but shall not be entitled to vote again through the e-voting system available during the AGM.

Ms. N Srividhya has been appointed as the Scrutiniser for the e-voting process The detailed procedure for remote e-voting/e-voting at AGM & attending AGM

www.sreekailas.com; on the website of CDSL, ie, www.evotingindia.com and on the BSE website.www.bseindia.com.

addressed to Mr.Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 21 09911.

For Cella Space Limited

Date:09/08/2024 TAURUS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Place: Chennal

CIN: U67190MH1993PLC073154

Head Office & Regd Office : 3rd Floor, 301-304, Chandravillas Co-op Premises Society Ltd., AML Centre 2, 8 Mahal Industrial Estate, Off. Mahakali Caves Road, Andheri-East, Mumbai - 400 093 Tel: 022 - 6624 2700 Email: customercare@taurusmutualfund.com

A copy of SAI, SIDs and KIMs of the schemes of Taurus Mutual Fund along

with application form may be obtained from Fund's website. www.taurusmutualfund.com

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF SCHEMES OF TAURUS MUTUAL FUND.

Changes in the Exit Load Structure:-

Notice is hereby given that the Exit Load Structures of the following Scheme(s) stands revised w.e.f. September 02, 2024 ("Effective Date")

Scheme Name **Existing Exit Load** Revised Exit Load Taurus Banking & Financial Services Fund 0.50% if exited on or before 1% if exited on or before 365 days. Taurus Infrastructure Fund | 7 days, NIL after 7 days NIL after 365 days Taurus Nifty 50 Index Fund

The redemptions/switches of Units will be considered on First-in-First-Out (FIFO) basis. The aforesaid changes will be applicable on a prospective basis i.e. in respect of subscriptions made in the Scheme(s) from the Effective Date. The Trustees and/or AMC reserve the right to change the load structure prospectively.

This Addendum forms an integral part of the SID & KIM of aforesaid schemes of Taurus Mutual Fund. as amended from time to time. All other contents of the SID & KIM of aforesaid schemes of Taurus Mutual Fund will remain

unchanged.

For Taurus Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for Taurus Mutual Fund) Place: Mumbai

Date: August 30, 2024 Natice cum Addendum No. 11/2024-25 Authorised Signatory

DIPR/3382/TENDER/2024

acceptance of advertising

**REGIONAL BUSINESS HEAD** 

# "IMPORTANT"

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot agreements with advertisers or otherwise acting on an

advertisement in

manner whatsoever.

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED

(Formerly known as SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE

**COMPANY LIMITED)** 

**PUBLIC NOTICE** 

This is to inform our customers and

public at large that our

Kayamkulam Branch located at

Killivileth Plaza, Near KSRTC Bus

690502 will shift to First Floor, Glas

Tower, 36/1662 to 1664, Near Town

Hall, Kayamkulam, Kayangulam,

Alappuzha, Kerala - 690502 from

The Customers are requested to

contact the new office premises for

Stand, Kayamkulam, Kerala

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED (Formerly known as SHRIRAM TRANSPORT FINANCE

**COMPANY LIMITED) PUBLIC NOTICE** 

This is to inform our customers and public at large that our **Peravoor Branch** located at First Floor. Shahiba Complex, Opposite Registrar Office, Peravoor, Kannur, Kerala - 670673 will shift to First Floor, Nazim Complex, Opposite to Registrar Office, Peravoor, Kannur, Kerala - 670673 from 13<sup>th</sup> December, 2024.

The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

**REGIONAL BUSINESS HEAD** 

SHRIRAM

SHRIRAM FINANCE LIMITED

(Formerly known as SHRIRAM

TRANSPORT FINANCE

COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and

public at large that our Vijayawada

- II Branch located at D.No: 40-

26-24/2, Third and Fourth Floor,

Jagirdar Mall 3, M.G. Road,

Vijayawada, Andhra Pradesh -

520010 will shift to 401, Fourth

Floor, Bhaskar Plaza, H.No.27-23-

252, Gopal Reddy Road,

Governarpet, Vijayawada, Krishna,

Andhra Pradesh - 520002 from 16th

December, 2024.



11th December, 2024.

their needs.

SHRIRAM FINANCE LIMITED TRANSPORT FINANCE

public at large that our Hubli - II Branch located at 163/5D, Third Floor, Kalburgi Land Mark, Opposite Girls English Medium School, Deshpande Nagar, Hubli, Karnataka - 580029 will shift to First Floor, Shop No. 107, Survey No 4A.2, (Old No. 4A), Ward No. 3, Marvel Artija, Malikar Association, Hubli, Vidyanagar, Dharwad, Karnataka 580021 from 11th December, 2024. The Customers are requested to contact the new office premises for

The Customers are requested to contact the new office premises for their needs. **REGIONAL BUSINESS HEAD** 



REGIONAL BUSINESS HEAD

(Formerly known as SHRIRAM **COMPANY LIMITED)** 

**PUBLIC NOTICE** 

This is to inform our customers and

their needs. Place: Gurugram **REGIONAL BUSINESS HEAD** 





Corporate Office: Landmark House, Plot Number 65, 6th and 7th Floor, Sector 44, Gurgaon, 122 003, Haryana, India Tel: +91 9311749240; Website: www.unicommerce.com; E-mail: complianceofficer@unicommerce.com

# **EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024**

In Rs. millions except per share data

|   | Particulars  | June 30, 2024<br>(Audited) | June 30, 2023<br>(Un-audited) | March 31, 2024<br>(Audited) |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Total Income   | 290.20                     | 262.67                        | 1,094.34                    |
| 2 | Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)   | 47.38                      | 35.94                         | 174.79                      |
| 3 | Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 47.38                      | 35.94                         | 174.79                      |
| 4 | Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 35.12                      | 26.79                         | 131.17                      |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | (0.29)                     | (0.25)                        | 2.00                        |
| 6 | Equity Share Capital   | 58.90                      | 0.23                          | 58.89                       |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year  | 666.13                     | 553.20                        | 628.59                      |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)-  |                            |                               |                             |
|   | Basic :  | 0.35                       | 0.27                          | 1.30                        |
|   | Diluted :  | 0.31                       | 0.24                          | 1.16                        |

Notes:

Date: August 30,2024

(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) www.bseindia.com, www.nseindia.com and the Company i.e. www.Unicommerce.com.

b) The above audited financial results for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed and audited by the Audit Committee in their meeting held on August 30, 2024 and approved by the Board of Directors of the Company in the meeting held on even date. These results are audited by the Statutory Auditors of the Company who have issued unmodified opinion on the Audited Financial Results for the guarter ended

c) The Financial Results are prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and amendments issued thereafter prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies as applicable.

Kapil Makhija

(Formerly known as Unicommerce eSolutions Private Limited)

Managing Director & CEO (DIN: 07916109)

## ESSAR POWER (JHARKHAND) LIMITED -IN LIQUIDATION U31101DL2005PLC211274

# E-AUCTION SALE NOTICE

Sale of Assets

Liquidator of Essar Power (Jharkhand) Limited - In Liquidation ("Corporate Debtor") is proposing the sale of movable assets of the Corporate Debtor located at Syama Prasad Mookeriee Port, Kolkata (Erstwhile Kolkata Port Trust-"KoPT") through e-auction on a standalone basis.

E-Auction on September 30, 2024 from 3 PM to 4 PM at web portal of: www.eauctions.co.in. Call at +91 88285 76197 or email at epil.lq@gmail.com for

more information. Detailed Sale Notice is uploaded on the website: www.eauctions.co.in. For Essar Power (Jharkhand) Limited - In Liquidation

Huzefa Fakhri Sitabkhan, Liquidator IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115

Authorisation for Assignment valid till December 19, 2024 huzefa.sitabkhan@gmail.com, epjl.lq@gmail.com

Date: August 31, 2024 Place: Mumbai

ACCEL LIMITED

CIN: L30007TN1986PLC100219 Regd. & Corp Office: Illrd Floor, SFI Complex, 178, ValluvarKottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034. Phone: 044-28222262, Email: companysecretary@accel-India.com ACCEL

Website: https://www.accel-india.com

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Accel Limited ("the Company") will be held on Monday. 23rd September, 2024 at 03.00 P.M. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out on the Notice of the AGM.

in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made hereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read together with Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') issued by Ministry of Corporate Affairs [MCA] and circular dated May 12. 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 issued by SEBI in this regard. The attendance of members attending the AGM through VC/ OAVM shall be reckoned for the purpose of

n compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Report 2023-2024 has been sent on 30th August, 2024 to the members whose E-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the website of the Company i.e. www.accel-india.com and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e., www.bseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e., www.evoting.nsdf.com. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity

share capital of the Company as on the cut-off date, being 16th September, 2024. The remote e-voting period begins on 20th September, 2024, at 09:00 A.M. and ends on 22" September, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL

or voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e., 16th September, 2024, may cast heir vote electronically. Any person who becomes a member of the Company after the cut-off date i.e., 16th September 2024 may obtain the User ID and password by either sending an e-mail request to e-voting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000. As per Regulation 42 of the LODR, the Transfer Books of the Company Shall remain Closed

from Tuesday, 17th September, 2024 to Monday, 23rd September, 2024 (both days inclusive)

for the purpose of 38th AGM including for ascertaining the shareholders eligible for receiving

The facility for voting through electronic voting system is also made available at the AGM and he members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. nformation and instructions relating to e-voting have been sent to the members through

email. The same login credentials may be used for attending the AGM through VC/OAVM. Detailed process and manner of Remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not egistered their email address is provided in the Notes to the AGM Notice n case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com/ or call call at 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi

Mhatre at https://www.evoting.nsdl.com/. The Board of Directors at its meeting held on 10th August, 2024 appointed Mr. Soy Joseph, Practicing Company Secretary, Chennai as Scrutinizer for conducting the e-voting process in

a fair and transparent manner.

By the Order of the Board For Accel Limited.

Date: 30-08-2024

Place: CHENNAI

S. V. RAO DIN: 06600739 WHOLE-TIME DIRECTOR Housing and Urban Development Corporation Ltd.



# (A Govt. of India Navratna Enterprise) CIN: L74899DL1970GOI005276, GST No. 07AAACH0632A1ZF

Regd Office: HUDCO Bhawan, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003, Phone: 011-24646899 Email: cswhudco@hudco.org, Website: www.hudco.org.in Notice

54" ANNUAL GENERAL MEETING

## NOTICE is hereby given that 54" Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 25th

September, 2024 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide circular dated 25th September 2023 read with Circular dated 5" May 2020 and Circular dated 7" October.

2023 of Securities and Exchange Board of India (SEBI) allowed Companies to convene their Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) without the physical presence of members at common venue and also dispensed with sending of physical copies of Annual Report to shareholders.

The Notice of 54" AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 is being sent through electronic mode to the members whose email address are registered with the Depositories/Registrar & Transfer Agent, in compliance of the SEBI circulars. Further, notice of AGM and Annual Report are also available on the website(s) of the Company at www.hudco.org.in, of Stock Exchange(s) i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com and of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

#### Manner of registering/updating e-mail address/bank account a. Members holding shares in dematerialized form, who have not

registered/updated their e-mail address so far, are requested to register/update the same with their Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

b. Members holding shares in physical mode, who have not registered/ updated their e-mail address so far, are requested to register/update the same by submitting duly filled and signed Form ISR-1 (available on the website of the Company) along with requisite supporting documents to RTA of the Company, i.e., Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055

# Manner of casting vote(s) through e-voting

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through e-voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The manner of e-voting, both remote e-voting and voting on the date of AGM, by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM. Joining the AGM through VC/OAVM

### Members are requested to carefully read the instructions for joining the AGM given in the Notice of the AGM.

if shares held in physical form.

Manner for registering mandate for receiving Dividend Members are requested to register/update: a. their complete bank details with their Depository Participant(s), if shares

are held in dematerialized form. furnish PAN, KYC (contact details, bank details and specimen signature). and nomination details, with RTA of the Company i.e., Alankit Assignments Limited, in duly filled and signed Form ISR-1 (available on the website of the Company) along with requisite supporting documents,

Members may further note that, pursuant to SEBI Circular dated March 16, 2023 read with Circular dated May 7, 2024, it is mandatory for the shareholders holding securities in physical form to, inter alia, furnish PAN, KYC, and nomination details. Any payments including dividend in respect of such folios shall only be made electronically with effect from April 1, 2024 upon registering the required details

By order of the Board of Directors

Vikas Goyal Date: 30.08.2024 Company Secretary Place: New Delhi

financialexp.epapr.in

CIN-L93000KL1991PLC006207

Notice is hereby given that The 33" Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, September 27, 2024 at 12.15 P.M through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with General Circulars 09/2023 dated

In line with the Circulars, the AGM Notice & Annual Report has been sent by email to

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the

The business to be transacted at the AGM may be by remote e voting or e-voting

Remote e-voting shall commence from September 24, 2024 (09:00 AM) and ends on

Any person who acquires shares of the Company and become member of the

the USER ID & password by following the procedure as provided in the AGM Notice. The members participating in the AGM through VC/OAVM facility & have not casted

The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may

through VC/OAVM is provided in the notice of AGM. The AGM Notice is available in on the website of the Company i.e.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be

Dhawal Mathur Company Secretary

**TAURUS** 

**Mutual Fund** 



# **UNICOMMERCE ESOLUTIONS LIMITED**

Corporate Identity Number: U74140DL2012PLC230932

Registered Office: Mezzanine Floor, A-83, Okhla Industrial Area, Ph-II, New Delhi 110 020, India

# [Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI

For Unicommerce eSolutions Limited

New Delhi

की तिथिः

खुदरा संपत्ति केंद्र: ऐक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी-2, दूसरी मंजिल आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा (यूपी)–201301, AXIS BANK कॉर्पोरेट कार्यालयः 'एक्सिस हाउस', ब्लॉक-बी, बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025,पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशूल', तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा–सूचना

चंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण, पनर्निर्माण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 वे साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(रों ) / गिरवीकता(ओं) को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों भीतर चूकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया। उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता (ऑ) / गारंटर(रों) / गरवीकता(ऑ)ंद्वारा राशि का भगतान करने में विफल रहे, एतद्दवारा उधारकर्ता(ऑ) / सह-उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(रों ) / गिरवीकता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(रीं ) / गिरवीकता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13के उप–धारा (8)के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(रों) / गिरवीकता(ओं) का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम संपत्ति का विवरण **1. मेसर्स विनायक एंटरप्राइजेज, 2. श्री आलोक** | पुष्पा मिश्रा के नाम पर आराजी संख्या 580 के भाग में दहेर्ल **मिश्रा पुत्र रमेश कुमार मिश्रा, ३. श्रीमती पुष्पा |** सुजानपुर कानपुर नगर स्थित, मकान संख्या 183 / ई जवाहरपुरम **मिश्रा पत्नी रमेश कुमार मिश्रा, सभी के पते**: दहेली सुजानपुर कानपुर नगर स्थित सम्पत्ति वह सम्पूर्ण टुकड़ा और सी/ओ 223 ए मंगला विहार, प्रथम जवाहरपुरम अंश जो निजी प्लॉट संख्या 183-ई पर बना है,जिसकी माप 100 न्यू पीएसी लाइन कानपुर नगर कानपुर उत्तर वर्ग गज है। चौहद्दी : पूर्व– विलेख के अनुसार, पश्चिम– विलेख के अनुसार, दक्षिण- विलेख के अनुसार, उत्तर-विलेख के अनुसार, **कब्जे की मांग नोटिस में राशि (रु.)**: एसबीबी ओवरड्राफ्ट ऋण सुविधाओं के लिए रु.

22 मई 2024 | 29-08-2024 | रुपये एवं इक्कीस पैसे मात्र) (29.02.2024 तक की गणना की गई ब्याज) ऊपर वर्णित ऋणी / सह-उधारकर्ता / जमानतदार(रों) / बंधककर्ता(ओं) को एतद्दवारा राशि चुकाने के लिए 30 दिनों का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी रखी हुई संपत्तियां प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार, बिक्री नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएंगी। अधिकृत अधिकारी, दिनांकः 31.08.2024, एक्सिस बैंक लिमिटेड स्थानः कानपुर, उत्तर प्रदेश

58,91,640.21 / – (रुपये अड्डावन लाख इक्यानबे हजार छह सौ चालीस

सेन्ट्रल बेंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 में आपन्हें लिए "केन्तिन" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 क्लब परिसर, पंचशील पार्क शाखा, नई दिल्ली-110017 सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंचशील पार्क शाखा, क्लब परिसर, पंचशिला पार्क, ब्लॉक एन पंचशील पार्क नॉर्थ, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017 में निम्नलिखित 10 लॉकर लम्बे समय से निष्क्रिय अवस्था में हैं। नीचे दिए गए लॉकर हमारे रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी ग्राहक के लिए बंद / अन-आवंटित हैं:-

| क्र.सं.          | लॉकर संख्या                                   |
|------------------|---|
| 1.               | 921   |
| 2.               | 966   |
| 3.               | 739   |
| 4.               | 794   |
| 5.               | 578   |
| 6.               | 671   |
| 7.               | 138   |
| 8.               | 244   |
| 9.               | 868   |
| 10.              | 992   |
| शाखा उपरोक्त लॉक | रों को 16.09.2024 (प्रकाशन की तारीख के 15 दिन |

या उसके बाद तोड़ देगी और उसमें उपलब्ध वस्तु (यदि कोई हो) की नीलामी कर देगी और प्राप्त राशि बैंक के बकाया शेष के लिए विनियोजित कर दी जाएगी। यदि इस लॉकर के सम्बन्ध में किसी का कोई दावा हो या कोई आपत्ति हो तो 16.09.2024 से पहले तक लॉकर से सम्बन्धित सभी दस्तावेज शाखा में /दावा शाखा में दर्ज करा सकते हैं। इसके वाद और दस्तावेजों के बिना इस सम्बन्ध में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा और बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

स्थानः नर्ड दिल्ली तिथि: 30/08/2024

@rehies

The worthwested and thought come

आर्चीज लिमिटेड पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 191एफ, सेक्टर--4, आई.एम.टी. मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा--122050 CIN: L36999HR1990PLC041175.

(शाखा प्रमुख), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

पंचशील पार्क शाखा, नई दिल्ली

वेवः www.archiesonline.com एवं www.archiesinvestors.in ईमेसः archies@archiesonline.com, टेसीः +91 124 4966666 34वीं वार्षिक आम समा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आर्थीज लिगिटेड (CIN: L36999HR1990PLC041175) की 34वीं

वार्षिक आग समा ("एजीएम") मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को दोपहर 03:00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना जो कम्पनी के सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, में निर्दिष्ट व्यवस्यों को निष्पादित किया जायेगा। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल / उपस्थित हो सकते हैं।

एमसीए सक्युंलर्स तथा सेबी सक्युंलर तिथि 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 तथा 13 मई, 2022 के अनुपालन में एजीएम की सुचना तथा वित वर्ष 2023-24 के वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पत कम्पनी / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.archiesinvestors.in तथा स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाइटों अर्घात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिगिटेंड www.nseindia.com पर भी क्रमशः उपलब्ध कराए जाएँगें।

सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये सदस्यों से आग्रह है कि ढिमैट में घारित शेयर र्क मामले में डिपॉजिटरीज के पास तथा भौतिक पद्धति में घारित शेयरों के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेवर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) अर्थात लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. के पास (https://instavote.linkintime.co.in) पर अपना ईमेल पता अधतन करा लें । ई—मेल पता के पंजीकरण से संबंधित किसी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्यगण enotices@linkintime.co.in अध्यवा

cs@archiesonline.com पर लिख सकते हैं। कट-ऑफ तिथि को मौतिक पद्धत्ति या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर घारित करने वाले सदस्य रिमोट ई- वोटिंग / एजीएम में ई- वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे। ई- वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी के लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. (https://instavote.linkinime.co.in) की सेवाएँ प्राप्त की हैं।

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:

विधिः 30.08.2024

 जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु पुनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे;

. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज के पास प्रबंधित लाम भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने

के लिये अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे enotices@inkintime.co.in पर अनुरोध मेजकर यूजर आईडी तथा

पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते दर्ज नहीं कराए हैं, वे फोलियो नं. तथा शेयरधारक के नाम का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र, पैन तथा आधार की स्वतः सत्यापित प्रति की की स्कैन्ड कॉपी cs@archiesonline.com पर कम्पनी के पास ईमेल द्वारा गेज कर वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ एजीएम की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यों से आग्रह है कि डिमैंट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में अपने डिपॉजिटरीज के पास तथा भौतिक पद्धति में घारित शेयरों के मामले में सदस्य के नाम, फोलिओ नम्बर का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र, बैंक खाता के विवरणों, पैन तथा निरस्त बैंक लीफ की स्वतः सत्यापित प्रति कम्पनी के आरटीए के पास अथवा cs@archiesonline.com पर कम्पनी के पास मेज कर अपने सम्पूर्ण बैंक खाता के विवरणों को अद्यतन करा लें।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

Bank of Baroda

दिनांक : 28-08-2024, स्थान : नोएडा

बोर्ड के आदेश से प्राचींज लिमिटेंड के लिये हस्ता/ (अनिल मूलचंदानी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN: 00022693

आहित्यां / ब्रकाया / आहित् मृत्य / ई...नीलामी की तिथि एवं समय ईएमडी और बोली वृद्धि राष्ट्रि का विवरण नीचे दिया गया है।

कनोरिया शुगर एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (सीआईएन:U15420UP1991PLC107319)

कॉपोरेंट कार्यालयः ए-९ ए, ग्रीन पार्क मैन, नई दिल्ली-110016 टेलीफोन नं.: 26961849, 26850488, 26855818 | ईमेल: sugar@kanoria.org| पंजीकत कार्यालय एवं फैक्टरी: कैप्टनगंज, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274301, **दूरभाष संख्या**: (05567) 252029, 252043 टेलीफोन नं.: (05567)252029, 252043 | ईमेल: captainganj@kanoria.org

सदस्यों के लिये सुचना

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम आमत्रंण सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये कम्पनी की 33वीं वार्षिक आम सभा कैप्टेनगंज, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274301 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी। कम्पनी के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सचना तथा कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट ऐसे कम्पनी के सभी सदस्यों को भेज दिया गया है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत है। कम्पनी ने (क) ऐसे सदस्यों ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत है। की ईमेल द्वारा सदस्यों को सभा की सचना का प्रेषण पुरा कर लिया है तथा (ख) जिन सदस्यों ने ईमेल पते पंजीकृत कराये हैं, उन्हे स्वीकृत पद्धति में उसकी भौतिक प्रतियाँ भेज दी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में वर्षिक आम सभा के उद्देश्य से कम्पनी की सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तके मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 से मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2014 के अनुपालन में यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 33वीं वार्षिक आमसभा में विचार हेतु प्रस्तावित संकल्पों पर मताधिकार के प्रयोग की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है तथा एजीएम के किसी अन्यत्र स्थल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') का उपयोग कर सदस्यों द्वारा मतदान करने की सुविधा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी सविसेस लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 (9.00 बजे पूर्वा.) में शुरू होगी तथा सोमवार. 23 सितम्बर. 2024 (5.00 बजे अप.) में बंद होगी। रिमोर्ट ई-वोटिंग पद्धति उसके बाद एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जाएगी। जिन सदस्यों का नाम अभिलिखित तिथि (कट-ऑफ तिथि) अर्थात् 17 सितम्बर, 2024 को सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा। वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान कर सकते हैं। सदस्यों का मताधिकार 17 सितम्बर, 2024 की कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी में उनकी

शेयरों के अनपात में होगा। यदि कोई व्यक्ति सचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते है तथा कम्पनी का सदस्य बनते है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 17 सितम्बर, 2024 को शेयर धारित करते है वे ई-वोटिंग के लिये लॉगिन आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करने के लिसे कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट, बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस (पी.) लि. को लिखें अथवा evoting@nsdl.co.in तथा helpdesk.evoting@cdslindia पर ईमेल भेजें। एजीएम मे इलेक्ट्रॉनिक पद्धति अथवा मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी

तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे मत पत्र द्वारा सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है। एजीएम से पूर्व जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो, वे र्भ एजीएम में शामिल हो सकते है लेकिन फिर से अपना मतदान करने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

पर्यवेक्षण करने के लिये श्री दिनेश कुमार देवरा, कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त घोषित परिणामों के साथ पर्यवेक्षक के रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा लिखित मे उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद एनएसडीएल क वेबसाईट पर स्थापित

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा एजीएम में भौतिक मत पत्र का

किसी प्रकार की पूछताछ के लिये आप evoting@nsdl.co.in के सहायता खंड मे उपलब्ध शेयरधारकों के लिये यूजर मैन्युअल देखें अथवा evoting@nsdl.co.in पर

सुश्री पल्लवी म्हात्रे से सम्पर्क करें। निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से कनोरिया सुगर एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

नरेन्द्र वाली पूर्ण कालिक निदेशक DIN: 07419331

### **GOALPOST INDUSTRIES LIMITED** CIN:L74110DL1982PLC013956

Regd Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 | Tel.:+91-9810260127. Email:gulmoharlimited@gmail.com | Website:www.goalpostltd.in

#### NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42<sup>st</sup> Annual General Meeting of the members of Goalpost Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 26, 2024 at 11: 00 A.M at 324A, III Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Notice convening the Meeting along with Annual Report has been sent to the members to their registered address electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e Friday, August 23,2024. Notice and annual report is available on the website of the Company (www.goalpostltd.in).

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.goalpostltd.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Monday, 23th September, 2024 from 9:00 A.M. and end on Wednesday 25" September ,2024 at 5:00 P.M. The remote evoting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date (Record date), i.e., Thursday 19th September, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE FOR AGM

NOTICE is also hereby given pursuant to applicable provision of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Thursday 19" September, 2024 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the AGM For and on behalf of Board

> Goalpost Industries Limited Kalika Mishra

Date: 30.08.2024 Company Secretary Place: New Delhi



8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता /

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

तिथि: 05.07.2024

स्थानः उत्तर प्रदेश

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली—110057 कॉर्पोरेट कार्यालयः सेंट्रम् हाउस्, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रूज (ई), मुंबई - 400 098

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना

(अचल संपत्तियों के लिए) नियम 8(1) देखें जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का प्राधिकत अधिकारी के रूप में सरक्षा हित के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ( प्रवर्तन) नियम, 2002 ने निम्नलिखित उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि भूगतान करने के लिए नीचे उल्लिखित तिथि को डिमांड नोटिस जारी किया है। निम्नलिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए निम्नलिखित उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर और आम

नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत 26/08/2024 को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन उल्लिखित राशि के लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क और उस पर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा

गिरवी रखी गई संपत्तियों /

जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के

| गारंटर का नाम और<br>ऋण खाता संख्या   | संपत्तियों का विवरण   | और बकाया राशि   |
|--|---|---|
| 1. मेसर्स प्रोसेस एंड सिस्टम ऑटोमेशन     2. अवतार सिंह     3. गुरमीत सिंह     4. हरप्रीत कौर     ऋण खाता संख्याः —     USFBDELLOAN000005012732 | अचल संपत्ति का वह टुकड़ा और पार्सल, पूर्वमुखी मकान जिसका<br>माप 125.66 वर्ग गज या 105.06 वर्ग मीटर है, जो आबादी पटेल<br>नगर, भूड़ खतौली, परगना और तहसील खतौली, जिला<br>मुजफ्फरनगर में स्थित है, जिसकी सीमाएं बिक्री विलेख दिनांक 02.<br>03.2013 के अनुसार नीचे दी गई हैं: —<br>सीमाएं (बंधक दस्तावेज के अनुसार): पूर्व: 26 फीट/रास्ता 12 फीट<br>चौड़ा, पश्चिम: 26 फीट/श्रीमती परमजीत कौर और अन्य का<br>मकान, उत्तर: 43 फीट 6 इंच/रघुनंदन भारद्वाज का प्लॉट, दक्षिण: | 12.06.2024, जिसकी राशि<br>रु. 47,41,886.92/ <b>– (रुपये</b> |

43 फीट 6 इंच/आबाद और सलीम का प्लॉट।

दिनांकः 31/08/2024 स्थानः मुजफ्फरनगर (यूपी )

आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266 कॉर्पोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, आर टेक पार्क, निलीन कॉम्प्लेक्स, एनआर हब मॉल, गोरेगांव (ई), मुंबई-400063, एमएच

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड** (एबीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित एक मांग सूचना जारी किया गया है जिसमें आपसे उधारकर्ता होने के नाते (नाम और पते नीचे उल्लिखित हैं) इसमें उल्लिखित राशि उक्त नोटिस और उस पर ब्याज उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का निर्देश दिया गया था।

कब्जा सूचना [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8 (1) देखें|

नीचे उल्लिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से यहां नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति और उसके साथ कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए **आदित्य बिङ्ला फाइनेंस लिमिटेड** (एबीएफएल) के शूल्क के अधीन होगी। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

| Ш | क्र. | उधारकर्ता (ओ)   | ओ/एस के अनुसार     |  | कब्जा तिथि |
|---|------|---|--------------------|--|------------|
| П | सं.  | का नाम  | मांग सूचना की तिथि | (बंधक रखी गई संपत्ति)  |            |
| П | 1.   | 1. <b>मैसर्स. पी. एस. इंजीनियर्स,</b> इसके मालिक श्री           | मांग सूचना की      | प्लॉट संख्या ८ का हिस्सा, ब्लॉक—पी (क्षेत्रफल ४१.८०५               | 28.08.2024 |
| П |      | मोहम्मद इमरान सिद्दीकी के माध्यम से                             | तिथि 19.06.2024    | ,  | सांकेतिक   |
| П |      | <ol> <li>मोहम्मद इमरान सिद्दीकी, पुत्र वसीम सिद्दीकी</li> </ol> |                    | स्थित है, जिसकी सीमा नीचे दी गई है:- <b>पूर्वः</b> प्लॉट           | कब्जा      |
| П |      | <ol> <li>शीबा सिद्दीकी, पत्नी इमरान सिद्दीकी</li> </ol>         |                    | संख्या ७, <b>पश्चिमः</b> ६.१० मीटर चौड़ी सड़क, <b>उत्तरः</b> प्लॉट |            |
| П |      | ऋण खाता संख्याः   | 20,03,717.26/-     | संख्या ८ (हबीब) का हिस्सा, <b>दक्षिणः</b> रेलवे साइडिंग।           |            |
| П |      | ABKANSTS000000525023  |                    | (c)  |            |
| I | 2.   | 1. मेसर्स एस.आर. बैटरी ई. रिक्शा, इसके मालिक                    | मांग सूचना की      | मकान संख्या 20/बी–624, रहमत नगर, शुलागंज,                          | 28.08.2024 |
| Ш |      | अब्दुल वाहिद के माध्यम से,                                      | तिथि 16.06.2024    | आराजी संख्या ३२९ एमआई (प्रवेश क्षेत्र—111.52 वर्ग मीटर)            | सांकेतिक   |
| Ш |      | <b>2. श्री अब्दुल वाहिद,</b> पुत्र अब्दुल हमीद                  | 07.062024          | के भाग पर निर्मित, मझरा पीपर खेड़ा एहतमाली, परगना—                 | कब्जा      |
| П |      | 3. श्रीमती एरम आफरीन,   | को रूपये           | हदाहा, तहसील और जिला उन्नाव में स्थित है, जिसकी                    |            |
| П |      | ऋण खाता संख्याः   | 22,45,603/-        | सीमा नीचे दी गई है:- पूर्वः अन्य भूखंड, पश्चिमः रास्ता             |            |
| П |      | ABKANSTS000000529332  |                    | 20 फीट उत्तरः फिरदौस का भूखंड, दक्षिणः उस्मान का                   |            |
| ш |      |   |                    | भरवद ।   |            |

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः कानपुर/उन्नाव, उत्तर प्रदेश आदित्य बिड्ला फाइनेंस लिमिटेड दिनांकः 31.08.2024

==== उ०प्र० राज्य सेत् निगम लिमिटेड कार्यालयः उप परियोजना प्रबन्धक स्रेत निर्माण नकार्न-प्रथम सेतु निर्माण इकाई-प्रथम

पत्रांक: 1394/E-Tender/2024-25 दिं0: 30.08.2024 निविदा सूचना (ई-टेण्डरिंग)

ऐशवाग, भुसामँण्डी, लखनऊ–226004

इकाई के अन्तर्गत जनपद रायबरेली रायबरेली—डलमऊ मार्ग पर स्थित उत्तर रेलवे के सम्पा सं0 22-ए (एम्स के निकट) पर निर्माणाधीन रेल उपरिगामें सेत् के निर्माण हेत् पी०आर०डब्स्० (शरिया-शटरिंग) ए विज्ञान सभा सत्तोन के हाजीपुर- मधवापुर मार्ग के मध्य निनैयाघाट पर निर्माणाधीन सई नदी सेंतु के निर्माण हेत् पी०आर०डब्लू० (शरिया-शटरिंग) एवं अन्य पी०आर७डब्लू० (लेबर कार्ये) हेल् निविदा ई-टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in पर आमन्त्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा दि० 02.09.2024 को 17.00 बजे से वेब पोर्टल पर सपलब्ध हैं। प्रशासीवासव उपपरिवेजन प्रवस्क

ऋण वसली न्यायाधिकरण—। दिल्ली चतुर्थे तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ. ए ने 160/2024 पजांब नैशनल बैंक

पीजीएस एक्सिम्स प्राइवेट लिमिटेड (1) पीजीएस एक्सिम्स प्रा. लि., जिसका पंजीकृत पता

352 मेन रोड प्रधम तल चावरी बाजार दिल्ली 110006 और खसरा नं 379 इनुमान मंदिर के पास फिरनी रोड अलीपुर दिल्ली (2) नितिन गुप्ता, वी 36 सीसी कॉलोनी मलका गंज

जत्तरी दिल्ली उत्तर, दिल्ली-110007 (3) अनीता गुप्ता, वी-36 सीसी कॉलोनी मलका गंज जत्तरी दिल्ली, दिल्ली-110007

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये 2,86,59,416.23 (रु. दो करोड़ क्रियासी लाख उनसठ हजार चार सौ सोलह और पैसे तेईस मात्र) की यसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए यह सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी गई है, आपको **दिनांक** 12-11-2024 को पूर्वा. 10.30 बजे माननीय पीओ के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट www.tribunal.gov.in देखें फोन 011-23748473)

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिषति में

चल रही महामारी की रिधति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया जाए और उस उद्देश्य हेत् किया जाएगा:-(i) सभी अधिवक्ता / पात्रगण "सिस्को वेबेक्स

एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे; (ii) योग्य मामले की सुनवाई की अगली तारीख के 'मीटिंग आईडी'' और "पासवर्ड" रजिस्टार, रिकवरी ऑफिसर-। द्वारा प्राप्त किये जाएँ रिकवरी ऑफिसर—।।, सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत DRT आधिकारिक पोर्टल अर्थात "https://drt.gov.in" की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होंगे। (iii) किसी भी आवश्यकता हेत. अधियक्ता

पात्रगण, संबंधित अधिकारी से फोन 011-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हरताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 08 अगस्त, 2024 को दिया गया। न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,

प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पछताछ के लिए उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते है। एलडी, रजिस्ट्रार, डीआरटी-। नई दिल्ली, फोन: 011-23748473, ईमेल: drt1delhi-dfs@nic.in

प्राधिकत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा

र्बेक ऑफ बड़ौदा, सेक्टर 63 शाखा, प्लॉट नं. 27, ब्लॉक एच−1/ए, सेक्टर 63, नोएडा, यूपी (ਸੇਲ आईडी vjseno@bankofbaroda.co.in)

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, परिशिष्ट-IV-A [नियम 6 (2) & 8 (6) देखें] प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रो), बंधककर्ता(ओ) और गारंटर(रो) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ.

| OHIT        | तियों / बकायों / आरोबत मूल्य / इ-मालामा का तिथ एवं समय, इएमठा आर बाला मुख सारा क   | विवरण नाम क्या नवा छ।  | X- U   |  | AUA 2020   |   | NO.   |
|-------------|--|--|--|--|--|---|---|
| क्र.<br>सं. | कर्जदार्स/गारंटर्स/बंधककर्ताओं<br>का नाम एवं पता   | ज्ञात भार के साथ<br>अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो<br>(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बंधक)   | कुल बकाया  | ई-नीलामी की<br>तिथि /समय<br>प्रारंभ समय से<br>अंतिम समय तक | आरक्षित मूल्य     जमा घरोहर राशि     (ईएमडी) रु.     च्यूनतम बोली     वृद्धि राशि रु.          | कब्जा की<br>स्थिति<br>(रंचनात्मक/<br>भौतिक) | निरीक्षण<br>की तिथि एवं<br>समय                                    |
| 1           | उधारकर्ताः श्री सुनील यदुवंशी उर्फ सुनील यादव पुत्र श्री विनोद यदुवंशी<br>सह—उधारकर्ताः श्रीमती संजना यादव पत्नी श्री सुनील यदुवंशी, दोनों निवासी मकान नं.<br>जे—206, ब्लॉक नं. जे, बीटा—2, ग्रेंटर नोएडा, यूपी — 201308 | आवासीय प्लॉट नं. 206, क्षेत्रफल 60 वर्ग मी.,<br>ब्लॉक—जे, सेक्टर बीटा—।।, ग्रेटर नोएडा,<br>जिला—गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201306 में<br>यह सम्पत्ति श्री सुनील यादव पुत्र श्री विनोद सिंह<br>यादव के नाम पर है। | हजार अड्डाईस और पैसे चौदालीस मात्र) दिनांक<br>31.03.2021 तक प्लस अनापेक्षित ब्याज और     | 08.10.2024<br>अपराह 02.00<br>बजे से अपराह<br>06.00 बजे तक  | आरक्षित मूल्य<br>रु. 59,00,000/-<br>ईएमडी रु. 5,90,000/-<br>और बोली वृद्धि राशि<br>रु 10,000/- | सांकेतिक                                    | 01.10.2024<br>को पूर्वाह<br>10.00 बजे से<br>अपराड 02.00<br>बजे तक |
| 2           | उधारकर्ताः श्रीमती संजना यादव पत्नी श्री सुनील यदुवंशी सह—उधारकर्ताः श्री सुनील यदुवंशी<br>उर्फ सुनील यादव पुत्र श्री विनोद यदुवंशी दोनों निवासी मकान नं. जे—206, ब्लॉक नं. जे,<br>बीटा—2, ग्रेटर नोएडा, यूपी — 201308   | सेक्टर पीआई-01, ग्रेटर नोएडा, जिला-गीतम  | छह सौ चौहत्तर मात्र) दिनांक 01.06.2022 तक<br>प्लस अनापेक्षित ब्याज और असर्विसङ ब्याज एवं | 08.10.2024<br>अपराह 02.00<br>बजे से अपराह<br>06.00 बजे तक  | आरक्षित मृल्य<br>रु. 25,00,000/-<br>ईएमडी रु. 2,50,000/-<br>और बोली वृद्धि राशि<br>रु 10,000/- | सांकेतिक                                    | 01.10.2024<br>को पूर्वाइ<br>10.00 बजे से<br>अपराड 02.00<br>बजे तक |
| 3           | उधारकर्ताः श्री अक्षय कुमार पुत्र श्री विक्रम शर्मा<br>सह—उधारकर्ताः श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री विक्रम शर्मा<br>दोनों निवासी मकान नं. 51, तुगलपुर, ग्रेटर नोएडा, अल्फा—1, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश —<br>201308      | आवासीय पलैट सं. 1209, क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर,<br>द्वितीय तल, ब्लॉक-ए, सेक्टर-एमयू-।।, ग्रेंटर<br>नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, यह सम्पत्ति<br>श्रीमती रेखा देवी और श्री अक्षय कुमार के नाम पर<br>है।         | 01,2024 तक प्लस ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि   | 20.09.2024<br>अपराह 02.00<br>बजे से अपराह<br>06.00 बजे तक  | आरक्षित मूल्य<br>७. 11,36,000/-<br>ईएमडी ७. 1,13,600/-<br>और बोली वृद्धि राशि<br>७ 10,000/-    | भौतिक                                       | 13.09.2024<br>को पूर्वाह<br>10.00 बजे से<br>अपराह 02.00<br>बजे तक |

भी हैं के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रॉ), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रॉ) को प्रत्यामूत - दाता बैंक ऑफ बड़ीदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित पर नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रॉ), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रॉ) / प्रतिभृति

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and online auction portal https://ebkray.in में दिए गए लिंक को देखें। इच्छ्क बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी, मो: 8929163251 से सम्पर्क करे।

www.readwhere.com

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

OA No. 167/2023 पंजाब एण्ड सिंध बैंक विरुद्ध मैसर्स माँ दर्गा टेडिंग कंपनी

सेवा में, (1) मेसर्स माँ दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी अपने प्रोप. मदन लाल सोमनी पत्नी श्री ओम प्रकाश दर्दा के माध्यम से 1 / 6249, गली नं. ३, पूर्वी रोहताश नगर, शाहदरा, उत्तर पूर्वी दिल्ली—110032

**अन्य पता**ः एक्स / 1104, अर्जुन गली रघुबर पुरा नंबर 2, गांधी नगर पूर्वी दिल्ली 110031 । जबिक उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध **रु. 20,41,538.14 / – (रुपए बीस लाख इकतालिस हजार** पाँच सौ अडतीस तथा पैसे चौदह मात्र) की वसली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचैना के माध्यम से आपको दिनांक 18—12—2024 को पूर्वा. 10.30 बजे विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है (अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट <u>www.etribunal.gov.in</u> देखें फोन नंबर 011—23748473)।

नेर्णय आपकी अनपस्थिति में किया जाएगा। वैश्विक महामारों की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु :- (i) सभी अधिवक्ता / विवादी "Cisco Webex" एलीकेशन / सॉफटवेयर डाउनलोड करेंगे : (ii) रजिस्टार / वसली अधिकारी—। / तथा वसली अधिकारी—। द्वारा मामलों की सुनवाई की अगली तिथि हेतू "Meeting ID" तथा "Password" अंगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल नामतः "drt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होगा। (iii) किसी कार्याधिक्य की स्थिति में. अधिवक्ता / विवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 011–23748473 र सम्पर्क कर सकते हैं।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा

ारे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **12 अगस्त 2024** को दिया गया। इस न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा, सहायक रजिस्ट्रार प्रतिवादी आगे पूछताछ के लिए नीचे लिखे नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं। विद्वान रजिस्ट्रार, डीआरटी— ।, फोन नंबर 011—23748473



टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड 11वीं तल, टावर ए, पेनिनसला बिजनेस पार्क, गणपत गव कदम मार्ग, लोक्षर परेल, मुम्बई- 400013, CIN No. U67190MH2008PLC187552,

मांग सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमायली, 2002 (नियमायली) के नियम 3 के साथ पटित थितीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत

गैसा कि अधिनियम के अंतर्गत टाटा कैपिटल झाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा निग्रमावली के नियम 3 के साथ पठित थारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी ने पूर्व में ही अधिनियम की घारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि को मांग सुचनाएं जारी कर ऋषधारक (कों)/ सह-ऋषधारक/ कों/ गारन्टर (रों) (सभी व्यक्तिगत अथवा साथ- साथ 'देनदारों'' के रूप में वर्णित)/ साविधिक उत्तराधिकारी/ साविधिक प्रतिनिधियों (नीचे वर्णित) को नीचे दिवे गए विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचनाओं में दर्गित राजि के भूगतान का निर्देश दिया था। उपन सचनाओं की प्रति पंजीकृत डाक ए.डी. से सर्व की गई तथा अधोहरताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। तथा उबत देनदार (री)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधियों, चंदि वे ऐसा चाहें, किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के सिलसिले में, एतदहारा एक बार फिन से उका देनदारों: सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को सधित किया जाता है कि संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त देनदारों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो, ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेजों/ लेखों के साथ पिटत रूप में कॉलम (घ) में वर्णित संबंधित तिथि से भूगतान एवं / अथवा उगाही की तिथि तक नीचे वर्णित आगे के व्यान के साथ उनके नागों के समक्ष यहां नीचे दशांई गई रांति का टीसीएचएफएल को भगतान करें। ऋग के नियत पनर्भगतान के लिए प्रतिभृति के रूप में क्रमशः उस्त देनदार (रो) द्वारा निम्न प्रतिभत परिसम्पनियां दीसीएचएफएल के पास गिरवी रखी गई है।

| ऋण      | देश्दर)( री.) सार्विधक उत्तराधिकारियोः/                                 | नीचे वर्णित तिथि को कुल   | मांग सूचना की                  |
|---------|---|---|--------------------------------|
| खाता से | सर्विधिक प्रतिनिधियों का सम   | बकाया ग्रीम (क.)*   | तिखि                           |
| 9296816 | श्री मनोहर चौहान<br>(ऋणधारक) एथं<br>श्रीमती फान्ता देखें<br>(सह-ऋणधारक) | 21.08.2024 की<br>रू. 7,05,121/-<br>( रू. सात लाख पाँच हजार एक सौ<br>इक्कीस मात्र)<br>की सात्र | 21.08.2024<br>एप<br>07.08:2024 |

सपरटेक युपी कन्टी, प्लॉट नं. टीएस-1, सेक्टर-17ए, यमना एक्स्प्रैसचे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिला गौतमबुधनगर-201301 (उत्तर प्रदेश) में रिथत 02 बीएचके फ्लैट/यूनिट नं. आर023एफ10-0803, 08वां तल, ब्लॉक/टावर-एफ-1, माप 900 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा।

| 9307681      | आ दापक कुमार अगरवाल<br>(ऋगधारक) एवं<br>श्री अमर कुमार<br>अगरवाल<br>(सह-ऋणधारक) | 21.08.2024 को<br>रु. 6,15,179/-<br>(रु. छः लाख पन्दह हजार एक सौ उन्यासी<br>मात्र) की राणि | 21.08.20<br>एवं<br>07.08.20 |
|--------------|--|---|-----------------------------|
| प्रतिभत परिस | म्पतियों /अखल सम्पतियों/   | गिरबी सन्पत्तियों का विवरण: आवासीय परि  | योजना शभव                   |

लॉर्डस, ब्लॉक-03, प्लॉट ने एससी-01/दी-1, सेक्टर-79, नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश) में स्थित आवासीय अपार्टमेन्ट नं. टी-6/ए-310, 10वां तल, टाइप-ए, माप-1165 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा

आगे के ब्याज, संबंधित मांग सुचना, उपरोक्त तिथि में विशेष रूप से वर्गित दर पर अतिरिक्त ब्याज, अनुषांगिक वार्जेज, लागतों, प्रभारों भगतान एवं/ अथवा डगाही की तिथि तक वहन को गर्ड, के साथ। यदि उक्त देनदार टीसीएचएफएल को उपरोक्त का भगतान करने में विफल होते हैं तो लागतों एवं परिणामी के लिये उक्त देनदार (री)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जीखिम पर टीसीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लाग होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही करेगा।

उबत देनदार (रों)/ साविधिक उत्तराधिकारियों/ साविधिक प्रतिनिधियों को उबत अधिनियम के अंतर्गत बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के विना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियीं/ अजल सम्पत्तियों को अंतरित करने से निषद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के उल्लंबन या उल्लंबन का प्रयास करते हैं तो वे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र एवं/

अथवा दंड के भागी बनेंगे।

आवेदक

निश्चि: 31.08.2024 हस्ता./-प्राधिकत अधिकारी स्थानः दिल्ली टाटा कैपिटल डाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिए

> प्रपत्र सं. एनसीएलटी 3 ए (राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण नियमावली, 2016 का नियम 35) माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष सी.पी. (सीएए) नंबर 30/सीएचडी/एचआरवाई/2024

के साथ संबंधित सी.ए. (सीएए) नंबर 24/सीएचडी/एचआरवाई/2023 कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के साथ पठित धारा 234 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के विषय में

> निम्नलिखित के बीच समामेलन की स्कीम के विषय में एफआईएम होल्डको आई लिमिटेड

("गैर-याचिकादाता कम्पनी 1" अथवा "अंतरणकर्ता कम्पनी-1") ऐरिस्टन इन्वेस्टमेंट्स सब ए लिमिटेड

("गैर-याचिकादाता कम्पनी 2" अथवा "अंतरणकर्ता कम्पनी-2") वन वर्ल्ड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

("याचिकादाता कम्पनी" अथवा "अंतरिती कम्पनी") उनके संबंधित शेयरधारक एवं क्रेडिटर्स

(इसमें आगे "समामेलन की स्कीम" अथवा "स्कीम" कही गई है) एफआईएम होल्डको आई लिमिटेड मारीशस में पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय लेवल ६, टावर ए, 1

एक्सचेंज स्क्वायर, वॉल स्ट्रीट, इबेने 72201, मारीशस गणराज्य कम्पनी नंबर : 75664 सी 1/जीबीएल

...... अंतरणकर्ता कम्पनी-1/गैर-याचिकादाता कम्पनी 1 ऐरिस्टन इन्वेस्टमेंट्स सब ए लिमिटेड मारीशस में पंजीकृत कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय लेवल 6, टावर ए. 1

एक्सचेंज स्क्वायर, वॉल स्ट्रीट, इबेने 72201, मारीशस गणराज्य कम्पनी नंबर : 067472 सी 1/जीबीएल

...... अंतरणकर्ता कम्पनी-2/गैर-याचिकादाता कम्पनी 2 वन वर्ल्ड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कम्पनी जिसका पंजीकत कार्यालय प्लॉट नंबर ४२२-बी, उद्योग विहार, फेज-४, ग्राम इंडाहेडा, गुरूग्राम, गुडगांव-122016, हरियाणा, भारत में स्थित है, इसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री अविनाश जैन के माध्यम से

सीआईएन : U45309HR2019PTC083279 .....अंतरिती कम्पनी/याचिकादाता कम्पनी

याचिका की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ पठित धारा 234 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक याचिका एफआईएम होल्डको आई लिमिटेड ("गैर-याचिकादाता कम्पनी 1" अथवा "अंतरणकर्ता कम्पनी—1") तथा ऐरिस्टन इन्वेस्टमेंटस सब ए लिमिटेड ("गैर—याचिकादाता कम्पनी २" अथवा "अंतरणकर्ता कम्पनी—२") का वन वर्ल्ड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ("याचिकादाता कम्पनी" अथवा "अंतरिती कम्पनी") और उनके संबंधित शेयरधारक एवं क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम (इसमें आगे "समामेलन की स्कीम" अथवा "स्कीम" कही गई है) की मंज़री के लिए याचिकादाता कम्पनी द्वारा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण चंडीगढ़ पीठ, ("माननीय एनसीएलटी") के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और माननीय एनसीएलटी द्वारा एक आदेश दिनांकित 9 अगस्त, 2024 द्वारा स्वीकार की गई थी। उपरोक्त याचिका की सुनवाई माननीय एनसीएलटी के समक्ष ०४ अक्टूबर, २०२४ को की जानी नियत है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, अपने आशय की सचना, जो उसके अपने स्वयं के अथवा उसके अधिवक्ता के नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, अधोहस्ताक्षरी अधिकृत प्रतिनिधियों को उनक उपरिवर्णित संबंधित पतों पर भेज सकता है, जो याचिका की सनवाई हेत नियत तिथि से कम से कम दो दिन पर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि वह याचिका का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा उसके शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाएगी। द्वितीय समावेदन याचिका की प्रति सभी संलग्नकों सहित प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को यह प्रति याचिकादाता कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांकितः 31-08-2024 कृते वन वर्ल्ड सेंटर प्राइवेट लिभिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ई-ਸੇਲ : sunil.tibra@nucleusofficeparks.com

अविनाश जैन